



GENERAL INTELLIGENCE

RRB HINDI Day - 06



1) राम ने शीतल का अपनी माँ के पति की इकलौती बहन की बेटी के रूप में परिचय कराया। विनोद, शीतल से कैसे संबंधित है?

- a) जीजाजी
- b) ममेरा भाई
- c) मामा
- d) भाई

2) एक लड़के के साथ चलने वाली महिला रास्ते में किसी अन्य महिला से मिलती है और जब उसने लड़के के साथ उसके संबंध के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि "यह मेरे पिता की पत्नी के पुत्रों में से एक और लड़के के मामा भाई हैं"। फिर औरत, लड़के से कैसे संबंधित है?

- a) बेटा
- b) चचेरे भाई
- c) मां
- d) बहन



3) गीता के बच्चों में से राम और सीता उसके प्रिय हैं। नंद का पोता श्रवण है, जो अपने मामा श्याम से सबसे अधिक प्यार करता है। नारायणन परिवार के मुखिया हैं, जिनकी अपनी दो क्रमागत संतान नन्दा और स्वेता हैं। नन्दा और गीता विवाहित हैं और उनके तीन बच्चे हैं। श्रवण के पिता स्वेता से कैसे संबंधित हैं?

- a) दामाद
- b) बेटा
- c) भाई
- d) कोई संबंध नहीं है

दिशा-निर्देश (4 – 6): निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

A + B का अर्थ है A, B की बेटी है

A – B का अर्थ A, B का पुत्र है

$A \times B$ का अर्थ है A, B की पत्नी है

$A @ B$ का अर्थ है A, B का पति है

$A \% B$ का अर्थ है A, B की माँ है

4) यदि $P \% R \times S - Q$ है, तो Q, R से कैसे संबंधित है?

- a) बहू
- b) सास
- c) बेटी
- d) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

5) $s @ B + A \% L \times H$ है, तो H, B से कैसे संबंधित है?

- a) भाभी
- b) जीजाजी
- c) दामाद
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं



6) $S \% R \times B; R \% U; Q - B$. निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

- a) B, U की माँ है।
- b) U, R की बेटी है।
- c) Q, R का पुत्र है
- d) S के दो पोते हैं।

दिशा-निर्देश (7-9): निम्नलिखित जानकारी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

- i) छह व्यक्तियों के परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं।

- ii) H, L की दादी है और J की माँ है।
- iii) K, J की पत्नी है और M की माँ है।
- iv) M, I जो J का पिता है, की पोती है।

7) H, M से किस प्रकार संबंधित है?

- a) दादाजी
- b) पोती
- c) दादी माँ
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं

8) परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) निर्धारित नहीं किया जा सकता है

9) एक विषम ज्ञात कीजिये।

- a) DC
- b) FC
- c) BF
- d) BE

10) अतुल की ओर इशारा करते हुए सैम ने कहा, 'वह मेरी बेटी की मां के पिता का बेटा है।' अतुल, सैम का कौन है?

- a) भाई
- b) साला
- c) चचेरी बहन



d) कोई संबंध नहीं

Answers:

1) उत्तर: b)

माँ के पति का अर्थ राम के पिता है। अपने पिता की इकलौती बहन का अर्थ उसकी बुआ है। बुआ की बेटी उसकी फुफेरी बहन है।

2) उत्तर: c)

महिला के पिता की पत्नी उसकी माँ है। उसकी माँ का बेटा उसका भाई है। लड़के के मामा का अर्थ उसकी माँ का भाई है। यदि लड़के के मामा और महिला का भाई, भाई हैं, फिर वह उनकी बहन है। इसीलिए, महिला बच्चे की माँ है।

3) उत्तर: d)

नारायणन परिवार के मुखिया हैं। नन्दा और स्वेता उनकी संतान हैं। गीता और नन्दा विवाहित हैं। उनके तीन बच्चे हैं। श्रवण नन्दा का पोता हैं और श्याम श्रवण के मामा हैं, जिसका अर्थ है कि श्याम नन्दा का पुत्र और सीता और राम का भाई हैं। सीता, श्रवण की माँ है। इसलिए सीता स्वेता की भतीजी है और उसका पति स्वेता से संबंधित नहीं है।

दिशा-निर्देश (4 - 6):

4) उत्तर: d)

P, R की माँ है। R, S की पत्नी है। S, Q का पुत्र है। इसका अर्थ है कि R, Q की पुत्रवधू है। लेकिन Q का लिंग निर्दिष्ट नहीं है। तो उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

5) उत्तर: b)

S, B का पति है। B, A की बेटी है। A, L की माँ है। L, H की पत्नी है। तो H, B का जीजाजी है।

6) उत्तर: c)

S, R की माँ है। R, B की पत्नी है। R, U की माँ है और Q, B का पुत्र है। इसलिए Q, R का भी पुत्र है।

दिशा-निर्देश (7-9):

7) उत्तर: c)

H, L की दादी है और J की माँ है। K, J की पत्नी है और M की माँ है। M, I की पोती है। इसीलिए H, M की दादी है।

8) उत्तर: d)

L का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

9) उत्तर: c)

BF अलग-अलग लिंगों का संयोजन अर्थात् पुरुष – महिला है और शेष या तो महिला-महिला या पुरुष-पुरुष का संयोजन है।

10) उत्तर: b)

बेटी की माँ सैम की पत्नी है। मेरी बेटी की माँ के पिता के बेटे का अर्थ सैम की पत्नी का भाई है। इसलिए अतुल, सैम का साला है।

